



### COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में 17 अप्रैल से होने वाले बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 अप्रैल, 2020) – COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), अपने समुदाय को सुरक्षित रूप से सेवा प्रदान कर रहा है, शुक्रवार, 17 अप्रैल से, अगले नोटिस तक, बस सेवा में इस प्रकार से बदलाव किए जाएंगे।

निम्नलिखित रूट्स पर सोमवार से शुक्रवार तक सेवा दुबारा चालू की जाएगी। इससे ब्रैम्पटन में लोगों को अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य देखभाल फैसिलिटीज तक और कार्यस्थलों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। हमारे पास जितने भी ट्रांज़िट ऑपरेटर उपलब्ध हैं, उनके साथ इन बस सेवाओं को कायम रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

#### रूट 8 सेंटर (Route 8 Centre)

**यह रूट ब्रैमली सिटी सेंटर (Bramalea City Centre), पील मेमोरियल सेंटर (Peel Memorial Centre) और ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल (Brampton Gateway Terminal) तक जाएगा।**

- बसें हर 50 मिनट बाद आएंगी
- ब्रैमली टर्मिनल (Bramalea Terminal) से पहली बस सुबह 5 बजे चलेगी
- ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल से पहली बस सुबह 5:50 बजे चलेगी

#### रूट 9 वोडन (Route 9 Vodden)

**यह रूट माउंट प्लेजेंट गो (Mount Pleasant GO), ब्रैमली टर्मिनल (Bramalea Terminal) और ईस्ट एंड (पूर्व दिशा के अंत तक) के कार्यस्थलों तक जाएगा।**

- बसें हर 60 मिनट बाद आएंगी
- माउंट प्लेजेंट गो से पूर्व दिशा की तरफ पहली बस सुबह 5 बजे चलेगी
- विलियम्स पार्कवे (Williams Parkway) और एडवैक ड्राइव (Edvac Drive) से पश्चिम दिशा की तरफ पहली सुबह 5:57 बजे चलेगी

#### रूट 52 मैकमर्ची (Route 52 McMurphy)

**यह रूट डाउनटाउन टर्मिनल (Downtown Terminal) और ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल (Brampton Gateway Terminal) तक जाएगा।**



- बसें हर 50 मिनट बाद आएंगी
- ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल से उत्तर दिशा की तरफ पहली बस सुबह 5 बजे चलेगी
- डाउनटाउन टर्मिनल से दक्षिण दिशा की तरफ पहली बस सुबह 5:20 बजे चलेगी

इस समय जिन रूट्स पर सेवा चालू है, उनकी और उनके शेड्यूल की सूची के लिए [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) पर जाएं।

अतिरिक्त बसों को, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के कुछ व्यस्त रूट्स पर लगा दिया गया है क्योंकि हम शारीरिक दूरी जैसे उपायों का समर्थन करने के लिए बसों में आधी सीटों पर ही सवारियां ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य, उपलब्ध स्रोतों के अनुसार अधिक से अधिक सेवा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सिटी के सभी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांज़िट की उचित पहुंच हो।

### COVID-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)